

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20/06/2021 जनपद देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया की अध्यक्षता में की गयी अपराध गोष्ठीए थाना प्रभारियों को दिये गये कड़े निर्देश।

आज दिनांक 20/06/2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० श्रीपति मिश्र द्वारा पुलिस लाइन देवरिया में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद से आये पुलिस कर्मियों के सम्मेलन किया गया। जिसमें पूर्व में कर्मचारियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी तो पाया गया कि पूर्व में प्राप्त समस्त मामलों का निराकरण कर लिया गया है। सम्मेलन के दौरान कतिपय कर्मियों द्वारा समस्यायें बतायी गयीं। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु अपराध समीक्षा की गयी। जिसमें सर्वप्रथम अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गस्त व क्षेत्र में भ्रमण करने, लंबित जनशिकायत एवं आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए गये। बैंकों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु विशेष निर्देश दिये गये तथा ऑपरेशन तमंचा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वालों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने व छोटी से छोटी बातों का संज्ञान लेने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के साथ साथ डिजिटल वालेंटियर ग्रुप को अपडेट कर उनके साथ नियमित मीटिंग कर उनका सहयोग लेने एवं सी-प्लान एप थाना प्रभारी व समस्त पुलिस कर्मियों द्वारा डाउनलोड करते हुए उसके माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के सभ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता किये जाने का निर्देश दिया गया। लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिलाबदर, एनबीडब्ल्यू के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने व शांतिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर आदि की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारी सहित यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने, एंटी रोमियो टीम द्वारा अभियान को निरंतर जारी रखने, वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता से अच्छा बर्ताव करने हेतु निर्देशित किया साथ ही साथ आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया गया। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच कर निस्तारण कराये। थानों पर लंबित मालमुकदमातो वाहनों/मालों के निस्तारण हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सोनकरए क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठीए क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री कपिलमुनी सिंहए क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी श्री पंचमलालए क्षेत्राधिकारी बरहज श्री देवानन्दए समस्त थाना प्रभारीए निरीक्षक एलआईयूए प्रतिसार निरीक्षकए आशुलिपिक पुलिस अधीक्षकए वाचक पुलिस अधीक्षकए प्रधान लिपिकए प्रभारी कोरोना सेलए प्रभारी डायल 112ए प्रभारी परिवहन शाखाए प्रभारी सम्मन सेल आदि उपस्थित रहे।